

अनुलग्नक -11

एनईएफ़टी/आरटीजीएस हेतु भुगतान-पर्ची

शाखा _____

शाखा _____

दिनांक _____

प्राप्ति का समय _____

दिनांक _____

(आरटीजीएस हेतु – राशि रु. 2 लाख या अधिक होनी चाहिए)

प्रतिपत्र

आरटीजीएस/एनईएफ़टी के माध्यम से दूसरे बैंक के ग्राहक को इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण हेतु आवेदन. (ग्राहक द्वारा भरा जाए)

| | |
|----------------------------|--|
| प्रेषक का खाता सं. | प्रेषक की आधार शाखा की खाता सं. |
| खाताधारक का नाम | खाताधारक का नाम (प्रेषक) |
| एनईएफ़टी/आरटीजीएस: | एनईएफ़टी/आरटीजीएस : |
| पक्षकार (आदाता) का नाम | पक्षकार /लाभार्थी (नाम) |
| बैंक: | प्राप्तकर्ता बैंक का नाम : |
| शाखा: | प्राप्तकर्ता शाखा का नाम: |
| आईएफ़एस कोड: | प्राप्तकर्ता शाखा का आईएफ़एस कोड : |
| लाभार्थी की खाता सं : | लाभार्थी की खाता सं: _____ |
| लाभार्थी के खाते का प्रकार | लाभार्थी के खाते का प्रकार : (बचत/चालू/ओ डी/सीसी/एनआरई/क्रेडिट कार्ड)/इंडो नेपाल के लिए प्रेषण लाभार्थी के लिए संदेश (केवल आरटीजीएस हेतु लागू) |
| राशि रु. | राशि रु. |
| विनिमय रु. | विनिमय रु. |
| कुल राशि रु. | कुल राशि रु. |
| कुल राशि शब्दों में | कुल राशि शब्दों में |
| | लाभार्थी की खाता सं: _____ (भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशनुसार दूसरी बार लिखा जाएगा) |

ग्राहक का नाम _____
दूरभाष/मोबाइल नं. _____
पैन _____

मैं/हम आपसे यह विप्रेषण भेजने हेतु अनुरोध करता/करती हूँ/करते हैं. यह समझ लिया गया है कि यह विप्रेषण मेरे/हमारे अपने जोखिम एवं मेरी/हमारी जिम्मेदारी पर भेजा जा रहा है तथा यह स्पष्ट रूप से समझा गया है कि कोई भी देयता जो भी हो बैंक की नहीं होगी चाहे कोई हानि या क्षति, प्रेषण में देरी, संदेश की डिलिवर होने या गैर-डिलिवरी न होने से या किसी गलती के होने से, उसके विनिमय या प्रेषण या सुपुर्दगी में गलती होने या जिस किसी भी कारण से संदेश का गूढ अर्थ निकालने या जब प्राप्त हो जाए तब इसका गलत अर्थ निकालने या व्यक्ति के नाम की समुचित पहचान न होने पर इसका गलत अर्थ निकालने के उत्पन्न हुई हो. मैं/ हम एतद्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की आरटीजीएस/एनईएफ़टी योजना के अनुसार हुए किसी अधिक विप्रेषण को बैंक को वापस करने का वचन देता /देती हूँ/दिते हैं.

बैंक का सील

कृपया उपर्युक्त विवरण के अनुसार (i) _____ शाखा के साथ मेरे/हमारे बचत/चालू/ओडी/सीसी/एनआरई / खाता सं _____ डेबिट करके राशि को प्रेषित करें (ii) मैं/हम एतद्वारा बैंक प्रभार सहित इसकी लागत के प्रति अपने खाते पर आहरित चेक सं _____ प्रस्तुत करता/करती हूँ/करते हैं.

व्यवसाय सहयोगी/रोकड़िया/टेलर के हस्ताक्षर

ग्राहक के हस्ताक्षर _____
दूरभाष/मोबाइल नं _____
पैन _____

ऑपरेटर के हस्ताक्षर
(संदेश तैयारकर्ता)

अधिकारी के हस्ताक्षर
(प्राधिकृत कर्ता)

अधिकारी के हस्ताक्षर
(सत्यापनकर्ता)

BANK OF BARODA**BANK OF BARODA**

ANNEXURE – II

PAYING – IN – SLIP FOR NEFT / RTGS

Form No. 404

Branch _____

Branch _____ Date _____

Time of Receipt _____

Date _____

(FOR RTGS – AMOUNT MUST BE FOR ₹ 2 LACS OR MORE)

COUNTER FOIL

Application for Electronic Funds Transfer to a customer of another Bank through RTGS/NEFT. (to be filled in by customer)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Sender's a/c no. | Sender's a/c no of base branch | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Name of a/c holder | Name of a/c holder (sender) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NEFT / RTGS: | NEFT / RTGS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Favouring(payee) Name | Favouring/beneficiary (Name) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bank: | Receiving Bank Name: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Branch: | Receiving Branch Name: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IFS Code: | Receiving Branch IFS Code: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiary a/c no: | Beneficiary a/c no: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiary a/c type: | Beneficiary a/c type: (SB/CA/OD/CC/NRE/Credit Card)/Remittance to Indo Nepal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Message for beneficiary (applicable for RTGS only) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amount ₹ | Amount ₹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Exchange ₹ | Exchange ₹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total amount ₹ | Total amount ₹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total amount in words | Total amount in words | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Beneficiary a/c no: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (to be written 2nd time as per RBI guidelines) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Signature of Customer

Tel/Mob No. _____

PAN _____

I/We request you to make the above remittance. It is being understood that the remittance is to be sent at my/our own risk and my/our responsibility and on the distinct understanding that no liability whatsoever is to attach to the Bank for any loss or damage arising or resulting from delay in transmission, delivery or non delivery of the message or for any mistake, exchange or error in transmission or delivery thereof or in deciphering the message from whatsoever cause or from its misinterpretation when received or from failure to properly identify the persons name. I/We also hereby undertake to refund to bank any over remittance, which is made as per RBI RTGS/NEFT scheme.

Bank's Seal

Please remit the amount as per above details by (i) debiting my/our SB/CA/OD/CC/NRE/ a/c No. _____ with _____ Branch (ii) I/We herewith tender cheque No _____ drawn on our a/c towards its cost including Bank charge.

Sign. of Clerk/Cashier/Teller

Signature of Customer

Tel/Mob No. _____.

PAN _____.

Sign. of operator

(who created msg.)

sign. of officer

(who authorized)

Sign. of officer

(who verified)